



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 582) पटना, मंगलवार, 19 मई 2015

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

आदेश
13 अप्रैल 2015

सं0 2644—जिलाधिकारी भागलपुर के पत्रांक-1235 दिनांक 12.12.14 द्वारा जिला अनुकम्पा समिति भागलपुर को प्रेषित कार्यवाही प्रतिवेदन में श्री श्रवण कुमार पिता स्व0 शंकर मंडल भूतपूर्व सर्वेखलासी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया को समूह 'घ' के पद पर नियुक्त करने का अनुशंसा प्राप्त है।

जल संसाधन विभाग, के झापांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02 पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05 पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02, एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में श्री श्रवण कुमार पिता स्व0 शंकर मंडल ग्राम-खगरा नवटोलिया, पो0-साहू परवत्ता जिला-भागलपुर को समूह 'घ' के अन्तर्गत अनुसेवक के पद पर वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1650 में नियुक्त किया जाता है। श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया में अनुसेवक के रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व0 शंकर मंडल के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री श्रवण कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।

5. अगर श्री कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।

7. श्री कुमार की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन साहू उच्च विद्यालय साहू परवत्ता, भागलपुर का पत्रांक-11 दिनांक 31.01.15 द्वारा किया जा चुका है।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
12. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 582-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>